



FACULTY HIGHER SECONDARY SCHOOL
SAMPLE QUESTION PAPER 2019-20
SUB- HINDI
CLASS - V

1. नीचे लिखे गद्यांश को पढ़िए तथा पुछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए -

सभी वच्चे खिलौने ले रहे हैं। महमुद सिपाही लेता है। मोहसिन को भिश्ती पसन्द है तो नुरे को वकील से प्रेम है। ये सभी दो दो पैसे के खिलौने हैं और हामिद के पास तो कुल तीन ही पैसे हैं। वह मिट्टी के खिलौने को पसन्द नहीं करता क्योंकि वे महँगे भी हैं। इसलिए वह लोहे की दुकान पर लाता है। वहाँ जाकर उसे खयाल आता है, “दादी के पास चिमटा नहीं है। चिमटे के बिना रोटी सेकते समय उसका हाथ जलता है।” यही सोचकर उसने तीन पैसे में एक चिमटा खरीद लिया।

सही विकल्प पर () चिह्न लगाइए।

(1X5=5)

क) हामिद ने खिलौना नहीं खरीदा क्योंकि –

- i) उसे खिलौना पसन्द नहीं था।
- ii) वह सोच समझकर खर्च करना चाहता था।
- iii) उसके पास केवल तीन पैसे थे।
- iv) खिलौने बहुत महँगे थे।

ख) निम्नलिखित में से भिश्ती नामक खिलौना किसने खरीदा ?

- i) हामिद
- ii) महमुद
- iii) मोहसिन
- iv) नुरे

ग) हामिद ने चिमटा खरीदा क्योंकि

- i) रोटी सेकते समय दादी के हाथ जलते थे।
- ii) चिमटा महँगा नहीं था।
- iii) चिमटा खिलौने से मजबूत था।
- iv) हामिद को चिमटा पसन्द था।

घ) कमजोर शब्द का विलोम होगा -

- i) बलवान
- ii) बलिष्ठ
- iii) बलशाली
- iv) ताकतवर

ङ) सभी बच्चे मिलकर गए थे -

- i) मेला देखने
- ii) सर्कस देखने
- iii) बाजार घूमने
- iv) गाँव घूमने

2. सही उत्तर पर () निशान लगाओ।

(1X4=4)

क) सच है ----- जब आती है।

- i) गाडी
- ii) विपत्ति
- iii) माँ
- iv) परी

ख) जब जोर लगाता है।

- i) श्रमिक
- ii) किसान
- iii) मानव
- iv) गाडीवान

ग) नहीं वह पाता है।

- i) रोशनी
- ii) सफलता
- iii) शिक्षा
- iv) संपन्नता

घ) मनुष्य को से काम करना चाहिए।

- i) धीरज
- ii) प्रेम
- iii) घृणा
- iv) भय

3. सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

(1X6=6)

क) भाषा का क्षेत्रीय रूप है।

- i) भाषा
- ii) बोली
- iii) लिपि
- iv) व्याकरण

ख) तेली शब्द का स्त्रीलिंग..... है।

- i) तेलीन
- ii) तौलिन
- iii) तोलिन
- iv) तेलिन

ग) उर्दू भाषा की लिपि..... है।

- i) रोमन
- ii) देवनागरी
- iii) गुरुमुखी
- iv) फारसी

घ) व्याकरण के विभाग है।

i) दो ii) तीन iii) चार iv) पाँच

ड) पत्र लेखन भाषा है।

i) लिखित भाषा ii)सांकेतिक भाषा iii)मौखिक भाषा iv) हिन्दी भाषा

च) चिडिया शब्द का बहुवचन रूप है।

i) चिडियें ii)चिडियाँ iii)चिडियाएँ iv)चिडियों

4. प्रश्नों के उत्तर लिखिए – (2X5=10)

क) विपत्ति आने पर सूरमा क्या नहीं करते ?

ख) राजा ने सिद्धार्थ के हक में फैसला क्यों दिया ?

ग) चाणक्य ने मुरा से क्या कहा ?

घ) व्याकरण किसे कहते है। व्याकरण के कितने विभाग है ?

ड) व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण दीजिए।

5. प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए (3X5=15)

क)भाषा और बोली में तीन अंतर लिखिए।

ख)भाषा के मौखिक रूप का क्या महत्व है ?

ग) संज्ञा किसे कहते है। संज्ञा के कितने भेद है। नाम लिखिए।

घ) मानव का सबसे बडा धर्म क्या है ? सिद्धार्थ ने घायल हंस की देखभाल कैसे की ?

ड) चन्द्रगुप्त ने पिंजरा खोले बिना ही शेर को बाहर कैसे निकाला ?

6. क) किसी एक विषय पर 50-60 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए – (5X2=10)

मेरे जीवन का लक्ष्य अथवा विद्यालय

ख) दया की जीत कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है , अपने शब्दों में लिखिए।

अथवा

है कौन विघ्न ऐसा जग मे

टिक सके आदमी के मग मे।

इस पक्ति का अर्थ बताइए।

उत्तर भाग

1. क) (ii) वह सोच समझकर खर्च करना चाहता था ।

ख) (iii) मोहसिन

ग)(i) रोटी सेकते समय दादी के हाथ जलते थे ।

ङ) (i) मेला देखने ।

4.(क) विपत्ति आने पर सूरमा न तो धैर्य खोते है और न अपने पथ से विचलित होते है । वे बाधाओ को दूर कर उचित मार्ग ढूँढ ही लेते है ।

5(क)भाषा और बोली में निम्नलिखित अंतर हैं –

भाषा	बोली
1. भाषा वह साधन है , जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है । 2. भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है । 3. भाषा में साहित्य का निर्माण होता है ।	1. भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते है । 2. बोली का क्षेत्र सीमित होता है । 3. बोली में साहित्य का निर्माण प्रायः नहीं होता ।

6 क) मेरे जीवन का लक्ष्य

प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कोई न कोई लक्ष्य निर्धारित होता है । अपनी रुचि के अनुसार कोई डाक्टर, कोई गायक तो कोई सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता है । मैं बडी होकर एक सफल शिक्षिका बनना चाहती हूँ । मैं अपने अध्यापकों के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहती हूँ ।